

Date: 17th January, 2025

To,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.

Scrip Code: 530601 Scrip ID: JAGSONFI

Dear Sir/Madam,

**Sub:** Newspaper Advertisement.

Pursuant to Regulation 30 read with 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed is the newspaper advertisement which was published in Financial Express (English Newspaper) and in Jansatta (Hindi Newspaper) on 17<sup>th</sup> January, 2025 containing, inter alia, details of notice of Postal Ballot dated 16<sup>th</sup> January, 2025, its dispatch and related matter.

Kindly take the same in your records.

Thanking You For Jagsonpal Finance & Leasing Limited

#### Karthik Srinivasan

Chairman and Managing Director and Chief Financial Officer

DIN: 09805485

Encl: a/a

FORM NO INC-26

Pursuant to rule 30 the Companies

# **FINANCIAL EXPRESS**

Phone: 40024682/ 40792205.

S. Arts Advtg. Phone: 23415111

Byculla (W), Mobile: 9892011371.

Taj Publicity Services,

Girgaon,

Phone: 2386 8065. Mobile: 9869074144.

Aaryan Publicity Dadar (E). Phone: 022-65881876 Mobile: 9320111876

B. Y. Padhye Publicity Services, Dadar (W), Phone: 2422 9241/ 2422 0445.

DATEY Advertising, Datey Bhavan, Dadar (W) Mobole: 8452846979/ 9930949817

Hook Advertainment

Mobile: 8691800888

Central Advertising Agency, Mahim (W). Phone: 24468656 / 24465555

Charudatta Advertising, Mahim (W),

Phone: 24221461 Jay Publicity,

Pallavi Advtg. Dadar (W), Mobile: 9869109765

Phone: 24124640

Shree Swami Samarth Advertising, Dadar (W), Phone: 24440631 Mobile: 9869131962

Stylus Arts. Dadar (W), Phone: 24304897

Time Advertising, Matunga (W), Phone: 2446 6191

Vijaya Agencies, Phone: 2422 5672.

Mobile: 9920640689

Media Junction, Matunga (W), Phone: 022-66393184/ 022-66332340 Mobile: 9820295353/ 9821656198

Bandra (W.), Phone: 22691584

Achievers Media

## METRO BRANDS LIMITED

3. Extract of key numbers of unaudited Standalone Financial Results.

Registered office: 401, Zillion, 4th Floor, LBS Marg & CST Road Junction, Kurla (West), Mumbai - 400 070. Website: www.metrobrands.com. Email: investor.relations@metrobrands.com. Telephone No: 022 2654 7700, CIN: L19200MH1977PLC019449



₹ in Crores

### EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

Sr.	MARC 1994, 1990		<b>Quarter Ended</b>		Nine Mont	Year Ended	
No.	Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Revenue from operations	703	585	636	1,865	1,774	2,357
2.	Profit before tax	159	94 136		376	359	462
3.	Profit after tax	95	72	99	259	260	415
4.	Total comprehensive income [comprising of profit (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	95	72	99	259	260	417
5.	Paid up equity share capital (face value of ₹5 each)	136.03	135.97	135.93	136.03	135.93	135,95
6.	Other equity			7			1727.76
7.	Earnings per equity share (of ₹5 each share) (In ₹) (Earnings per share for all periods, except for year ended March 31, 2024, are not annualized)						
	Basic	3.48	2.56	3.60	9.41	9.47	15.18
	Diluted	3.46	2.55	3.58	9.37	9.43	15.11

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and on the company's website www.metrobrands.com 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on January 16, 2025. The statutory auditors of the company have carried out limited review of the consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 and have issued an unmodified opinion. ₹ in Crores

Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended Sr. **Particulars** No. 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 688 567 624 1,727 2,305 Revenue from operations 1,818 158 133 368 353 466 2. Profit before tax 88 Profit after tax 94 66 96 252 253 418

Place: Mumbai Date: January 16, 2025 For and on behalf of the Board of Directors, Metro Brands Limited,

Farah Malik Bhanji, Managing Director

केनरा बैंक Canara Bank ❖

Militario bassississi

REF:RO/LEGAL/SARFAESI/37/2024/MV

410502, **Mob:-** 7775862742, 7798851469

(Incorporation) Rules, 2014) Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Regional Director Northern Region, Mumbai.

n the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the

Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of ECROSS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (the Company) having

its registered office at 2D/303, N.G. SUNCITY PHASE-2 THAKUR VILLAGE, KANDIWALI EAST, MUMBAI, Maharashtra, India, 400101 Petitioner Notice is hereby given to the General Public

that the Company proposes to make

application to the Regional Director, Northern Region, Mumbai under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 17th December, 2024 to enable the Company to change its Registered Office from \*2D/303 N.G. SUNCITY PHASE-2 THAKUR VILLAGE, KANDIWALI EAST, MUMBAI Maharashtra, India, 400101" to "245/3 Poornima plaza, doddathogur main road, konappana agrahara electronic city Bengaluru, Karnataka 560100, Bengaluru, located in the State of Karnataka\*

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Everest, 5th Floor, 100 Marine Drive, Mumbai-400002, Maharashtra within 14 (fourteen days) of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at 2d/303, N.G. Suncity Phase-2 Thakur Village, Kandiwali East, Mumbai, Maharashtra,

For and on behalf of the ECROSS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Kushal Suhasaria

India, 400101.

Navi Mumbai Regional Office,

C-14. G Block, BKC, Bandra East,

email:-recoveryronm@canarabank.com

DATE: 14.01.2025

Circle Office Buildin

Mumbai- 400 051

Mr. Suresh Laxman Shinde.S/O Laxman Shinde:-Room No 5226, Bldg No 161, New

Tilak Nagar Riddhi Siddhi Chs New Tilak Nagar Chembur Mumbai. Maharashtra – 400089

Mrs. Sumitra Laxman Shinde:- Aptale Ghogarewadi. Tal Junnar. Dist Pune. Maharashtra —

Mrs. Aditi Suresh Shinde:- Room No 5226, Blgd No 161, New Tilak Nagar Riddhi, Siddhi

Director Date: 17-01-2025 DIN: 07302337 Place: Mumbai

I. 8th Floor. A' Wind

### > KCD

## KCD INDUSTRIES INDIA LIMITED

Regd, Office: Unit No 101, KCD Jogesh Eva, Natwar Nagar, Road No. 1, Jogeshwari (East), Mumbai, Maharashtra - 400060, India Ph. No.: 9137322030 | E-mail: compliance@kcdindustries.com website: www.kcdindustries.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the members of KCD Industries India Limited that the Extra Ordinary

#### General Meeting ("EOGM") of the members is scheduled to be held on Friday, 07th February. 2025 at 10:00 A.M. at the registered office of the company situated at "Unit No 101, KCD

permitted mode on 16th January 2025.

Jogesh Eva, Natwar Nagar, Road No. 1, Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060" to transac the businesses as set out in the Notice of EOGM: All the members are hereby informed that: The Company has completed dispatch of the Notice of EOGM to the Members through

- The businesses as set forth in the notice of EOGM may be transacted through remote e voting system or at the EOGM.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the EOGM shall be 31st January, 2025 Persons whose name is recorded in the register of beneficial owners maintained as on the
- cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of E-voting.
- The remote e-voting shall commence on Tuesday, 04th February 2025 at 09:00 a.m. and will end on Thursday, 06th February 2025 at 05.00 p.m.
- The remote e-voting module shall be disabled by National Depository Services (India Limited ("NDSL") thereafter
- Any person who acquires the shares and becomes the member of the company after the dispatch of the notice and hold shares as on the cut-off date i.e., 31st January, 2025, may obtain login ID and password by sending request on evoting@nsdl.co.in, to cast their vote electronically. However, if a person is already registered with NDSL for e-voting then existing User Id and password can be used to cast their vote.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- The results declared along with scrutinizer report within the prescribed period shall be communicated to the stock exchange.

Members are requested to note that in case you have any queries or issues regarding e voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. By Order of the Board of Directors

For KCD Industries India Limited Rajiv Darji Date: 16th January 2025 Managing Director DIN: 02088219 Place: Mumbai



Relationship beyond banking ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH: Bank of India Building, First Floor,

28, S. V. Road, Andheri (W), Near Andheri West Railway Station, Mumbai-400 058. Tel. No. 2621 0406 / 07; Email: asset.mnz@bankofindia.co.in

### POSSESSION NOTICE

M/s. Mahavir Roads & Infrastructure Pvt. Ltd., M/s. Mahavir Stone Supply Co.,

WHEREAS The undersigned being the Authorized Officer of Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13 (12) read with Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. issued a Demand Notice dated 16.01.2017 upon the Borrower M/s. Mahavir Roads & Infrastructure Pvt. Ltd., & M/s. Mahavir Stone Supply Co., to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 139,15,16,74.66 (Rs. One Hundred Thirty Nine Crores Fifteen Lakhs Sixteen Thousand Seventy Four & Sixty Six Paise only) plus interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the Public in General that the undersigned has taken PHYSICAL POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules this 14th Day of January, 2025.

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India, Asset Recovery Management Branch, Andheri for an amount of 139,15,16,74.66 (Rs. One Hundred Thirty Nine Crores Fifteen Lakhs Sixteen Thousand Seventy Four & Sixty Six Paise Only) and further interest thereon.

1. All that part and parcel of the property consisting of Flat No. 903, B-wing, 9th Floor, Mermaid I CHS Ltd., Plot No. 32/33, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614 owned by M/s. Mahavir Sales Corporation.

DESCRIPTION OF PROPERTY / IES

- 2. All that part and parcel of the property consisting of Office Premises Unit Nos. 111, 112, 113, 115, 116, 117, Plot No. 22, 23, 24, Krishna Govinda Shopping Centre, Sector-24, Vashi, Navi Mumbai-400 705 owned by M/s. Mahavir Stone Supply Co., & M/s. Mahavir Sales Corporation.
- 3. All that part and parcel of the property consisting of Flat No. 203, B-Wing, 2<sup>st</sup> floor, Mermaid I CHS Ltd., Plot No. 32/33, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400 614 owned by M/s. Mahavir Sales Corporation.

Date: 14.01.2025 **Authorized Officer** Bank of India

Place: Vashi, Navi Mumbai,

#### **FORM NO-URC-2** Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the

Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days but before the expiry of thirty days hereinafter to the registrar at **Mumbai**, **Maharashtra** that RESPECT LABS LLP (LLPIN: AAG-6413) a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares. The principal objects of the company are as follows: "To carry on the business, as

- manufacturers of and dealers in and importers, and exporters of all kinds of basic drugs, drug intermediates, any chemicals, heavy or fine, organic, agro-chemicals, aromatic chemicals, dyes and dyes intermediates, pharmaceuticals, medicinal, herbal, bacteriological, biological, chemicals and all allied chemicals and products thereof. To manufacture, produce, refine, process, formulate, buy, sell, import, export or otherwise deal in basic drugs, chemicals, plant extracts, dues, pesticides and their intermediates, laboratory and scientific chemicals used or capable of being used in the pharmaceuticals, textiles, agriculture, fertilizers, petrochemicals or any other industry and trade or laboratory including industrial chemicals or any other mixture, derivatives and compound thereof. To maintain laboratory and manufacture to get manufactured or to manufacture for others on loan license basis or on contract or understanding with other firms, companies and individual (s) irrespective of the brand name in India and elsewhere, import, export, process, buy, sell, distribute and establish laboratories and deal in all kinds of Ampicillin, other classes of antibiotics, avuryedic, allopathic, homeopathic and in all branches of medicines, ethical medicines, pharmaceuticals, medicinal, bulk drugs, chemicals and chemical intermediates, patent and proprietary, medicines, veterinary medicines, immunological medicines, antiseptics, antibiotics, disinfectants, paramedial, contraceptives, vaccines, tincture extracts, restoratives or foods for invalids, convalescents, infants."
- A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at Plot No A-707 TTC INDL Area, MIDC, Mahape, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra, India, 400710.
- Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin code-122050, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. Dated this 17<sup>th</sup> (Seventeen) day of January, 2025

For, Respect Labs LLP 1.Mr. Nehru Veeraraghavarao Yanamadala (Designated Partner)

- **2.Mr. Eswara Rao Kodali** (Designated Partner) 3.Mr. Sivakumar Venkata Bobba (Designated Partner)"
- **4.Mr. Sunil Haripant Pophale** (Partner)
- 5.Mr. Paras Vinod Gandhi (Partner)"

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LIMITED

CIN: L65929DL1991PLC043182 Regd Office: Level 3B, DLF Centre, Sansad Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001. Tel: 011-61289046;

e-mail: compliance@jagsonpal.co.in: website: www.jagsonpal.co.in

Notice of Postal Ballot Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 108 read with 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20, 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof, for the time being in force) Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable circulars, laws and regulations each as amended and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular Nos. 14/2020 dated 08th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020 along with subsequent circulars issued in this regard and the latest Circular No. 9/2024 dated 19th September 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3\* October, 2024, it is proposed to pass the resolutions mentioned in the Notice dated 16th January, 2025 by the

only remote voting by electronic means ("remote e-voting"): The Company has on Thursday 16th January, 2025 completed dispatch of the Postal Ballot Notice dated 16th January, 2025 by email only to the members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial owners as on Friday 10th January, 2025 (cut-off date) and whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants/Company Registrar and Share Transfer Agent,

members of Jagsonpal Finance and Leasing Limited ("Company") by Postal Ballot through

In terms of the requirements specified in the MCA Circulars, the Company is sending the Postal Ballot Notice in electronic form only via email. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot. The Notice is available on the website of the Company at www.jagsonpal.co.in, website of BSE Limited at www.bseindia.com and the website of NSDL at https://www.evoting.nsdf.com/

In compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to the provisions of Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the MCA Circulars, the Company is providing only remote e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the Postal Ballot Form physically. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. (IST) on Friday 17th January, 2025

and ends at 5.00 p.m. (IST) on Saturday 15th February, 2025. Members desiring to exercise their vote through the remote e-voting process are requested to record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) not later than 5.00 p.m. (IST) on Saturday 15th February, 2025. Remote e-Voting will be blocked immediately thereafter and no e-voting will be allowed beyond the said date and time. The cut-off date for members of the Company to be eligible to cast their vote electronically is Friday 10th January, 2025. A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders

and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@risdl.co.in. Alternatively, the members can contact Registrars and Transfer Agents at info@masserv.com or company at compliance@jagsonpal.co.in. M/s. Pooja Sawarkar & Associates, Practicing Company Secretaries is appointed as the

Scrutinizer to conduct the Postal Ballot and scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The proposed resolution, if passed by requisite majority, will be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting i.e Saturday 15th February, 2025. The results of the voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at www.jagsonpal.co.in and intimated to the BSE Limited and will be available at www.bseindia.com not later than 48 hours of conclusion of the e-voting. The members of the Company who have not registered their e-mail IDs and Mobile number

with the Depository Participants/Company/ Registrar and Share Transfer Agent, to receive documents like Notice, Annual Reports and alike correspondence through electronic mode are requested to send their e-mail IDs and Mobile number either to the Company's id. compliance@jagsonpal.co.in or Registrars and Transfer Agents email id: info@masserv.com or to their respective Depository Participants.

For Jagsonpal Finance & Leasing Limited Karthik Srinivasan Chairman and Managing Director and

DIN: 09805485

Chs, New Tilak Nagar, Chembur, Mumbai, Maharashtra-400089. Mob: - 9819913018 Mr. Suresh Laxman Shinde, Aptale Ghogarewadi, Tal Junnar, Dist Pune, Maharashtra-410502, Mob: 9819913961 Subject: Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (Sarfaesi Act, 2002) Read With Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 As Amended From Time To Time.

Mob:- 9819913961

The undersigned being the authorized Officer of Canara bank, MUMBAI CHEMBUR EAST II branch (hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002, (hereinafter referred as the "Act") do hereby issue this notice to you as under: That MR. SURESH LAXMAN SHINDE and MRS. SUMITRA LAXMAN SHINDE (hereinaf-

ter referred to as "THE BORROWER") have availed credit facility/ facilities stated in Schedule A hereunder and have entered into the security agreements in favour of secured creditor. While availing the said credit facilities, you have expressly undertaken to repay the loan amount/s in accordance with the terms and conditions of the above mentioned agreements. That MRS. ADITI SURESH SHINDE has guaranteed the payment on demand of all moneys and discharge all obligations and liabilities owing or incurred to the secured creditor by the borrower for credit facilities up to the limit of Rs. 28,50,000.00 (Rupees Twenty eight lakh

You (The Person mentioned in Schedule B) are also entered in to agreements against the secured assets which are detailed in Schedule B hereunder.

However, from September 2024, the operation and conduct of the said financial assistance/ credit facilities have become irregular. The books of account maintained by the secured assets shows that the liability of the borrower towards the secured creditor as on date amounts to Rs. 22,79,133.88 (Rupees Twenty two lakh seventy nine thousand one hundred thirty three and paise eighty eight only), the details of which together with the future interest rate are stated in schedule C hereunder. It is further stated that the borrower/ Guarantor having failed to keep up with the terms of the above said agreement in clearing the dues of the secured creditor within the time given, and have been evasive in settling the dues. The operation and conduct of the above said financial assistance/ credit facility/ies having come to a standstill and as a consequence of the default committed in repayment of principal debt. Installment and interest thereon, the secured creditor was constrained to classify the debt as Non-Performing Asset (NPA) as on 29.12.2024 in accordance with the

directives/guidelines relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India. The secured creditor to through this notice brings to your attention that the borrower has failed and neglected to repay the said dues/ outstanding liabilities and hence hereby demand you under Section 13(2)of the Act, by issuing this notice to discharge in full the liabilities of the borrower as stated in Schedule C hereunder to the secured Creditor within 60 days from the date of receipt of this notice that you are also liable to pay future interest at the rate of 13.56% Per Annum together with all costs, charges, expenses and incidental expenses with respect to the proceedings undertaken by the secured creditor in recovering its dues.

Please take note of the fact that if you fail to repay to the secured creditor the aforesaid sum of Rs. 22,79,133.88 (Rupees Twenty two lakh seventy nine thousand one hundred thirty three and paise eighty eight only), together with further interest and incidental expenses and costs as stated above in terms of this notice under Sec. 13(2) of the Act, the secured creditor will exercise all or any of the rights detailed under sub- section (4) (a) and (b) of Section 13, the extract of which is given here below to convey the seriousness of this issue: 13(4)- In case the borrower/Guarantor fails to discharge liability in full within the period specified in sub section (2), the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures to recover his secured debt, namely;

a) Take Possession of the secured assets of the Borrower/Guarantor including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset; **b)**Take over the management of the business of the borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset:

Provided that the right to transfer by way of lease, assignment or sale shall be exercised only where the substantial part of the business of the borrower is held as security for the debt; Provided further that where the management of the whole of the business or part of the business is severable, the secured creditor shall take over the management of such busi-

And under other applicable provisions of the said Act. Your attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13, in respect of time available, to redeem the secured assets.

ness of the borrower which is relatable to the security for the debt;

You are also put on notice that in term of Section. 13(13) the borrower/ Guarantor shall not transfer by way of sale, lease or otherwise the said secured assets detailed in Schedule B hereunder without obtaining written consent of the secured creditor. It is further brought to your notice that any contravention of this statutory injunction/restrain, as provided under the said act, is an offence and if for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited with the secured creditor. In this regard you shall have to render proper accounts of such

This notice of Demand is without prejudice to and shall not be construed as waiver of any

other rights or remedies which the secured creditor may have including further demands for the sums found due and payable by you. This is without prejudice to any other rights available to the secured creditor under the Act and/or any other law in force.

Please comply with the demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of no-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequence.

Yours Faithfully, AUTHORISED OFFICER

Shinde Alias

Schedule A:- [Details Of Credit Facility/les Availed By The Borrower] Serial Loan A/C.number Nature Of Loan/ Date Of

No	.	Limit	Sanction	
1.	50099780000182	Synd Vidya Abroad	26/09/2018	Rs. 28,50,000.00
	SCHEDULE	B:-[DETAILS OF SI	CURITY ASS	ETS]
SL NO		IMOVABLE		
1	Tenement No 161/5226	3 2rd Floor Building	No. 161 Now	Mrs Aditi Surash

	Mumbai, Maharshtra -400089. Admeas up Area. Boundaries: North: MIG Bu Road East: Building No. 160, West: Bu	iliding, South: Access	. Aditi I Pednekar							
l	SCHEDULE C:-[DETAILS OF LIABILITY AS ON DATE]									
Н	Sorial Loan A/C Nature Of	Loan/ Date of Ar	nount							

Tilak Nagar, Riddhi Siddhi CHS, New Tilak Nagar, Chembur,

Loan A/C. Nature Of Loan/ Date of Amount No. Limit Saction number 50099780000182 | Synd Vidya Abroad 26/09/2018 Rs. 28.50.000.00

NAVNEET MERCANTILE PRIVATE LIMITED Read, Office: 04, Floor-1, Plot-547, Kavarana Building, Kalbadevi Road, Jambul Wadi, Kalbadevi, Mumbai, Maharashtra, India, 400002 Email - navneetmercantile@yahoo.com Form No. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the

newspaper for change of registered office

of the Company from one state to another

Before the Central Government Western Region Mumbai the matter of sub-section (4) of Section 13 o Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation)

In the matter of NAVNEET MERCANTILE

PRIVATE LIMITED having its registered office at 04. Floor-1. Plot-547. Kavarana Building Kalbadevi Road, Jambul Wadi, Kalbadevi Mumbai, Maharashtra, India, 400002 Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of

alteration of the Memorandum of Association of

the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting

held on 07th October, 2024 to enable the

Company to change its Registered office from the

State of "MAHARASHTRA" to the state of "WEST Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint former cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interes and grounds of opposition to the Regional Director, Western Region, Everest 5th Floor, 100 Marine Drive, Mumbai - 400002, Maharashtra within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company

For and on behalf of the Applicant NAVNEET MERCANTILE PRIVATE LIMITED Sd/- SHYAMAL DAS Date: 17:01.2025 Director DIN: 09110656 Place: Mumbai

at its registered office at the address mentioned

### "IMPORTANT"

Notes:

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P.) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever. Registered letters are not accepted in response to box number advertisement."

## 🕑 kotak

#### KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED CIN - U65900MH1988PLC047986

Quarter ended Quarter ended Previous

Regd. Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Telephone: +91 22 6218 5303 Website: www.kmil.co.in

Extract of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 Amount (₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	December 31, 2024 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	37,158.06	40,270.56	142,366.73
2	Net Profit for the year (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	9,498.68	19,464.16	63,850.89
3	Net Profit for the year before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	9,498.68	19,464.16	63,850.89
4	Net Profit for the year after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	7,051.83	14,477.45	47,496.21
5	Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,958.30	14,651.88	48,342.77
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10 per share)	562.26	562.26	562.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	362,015.36	316,485.66	327,443.61
8	Securities premium account	33,545.76	33,545.76	33,545.76
9	Net worth	362,577.62	317,047.92	328,005.87
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	847,038.40	1,063,637.17	1,139,188.23
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	_	- 1	_
12	Debt Equity Ratio	2.34	3.35	3.47
13	Earnings per Share (of ₹ 10 each) - Basic & Diluted	125.42	257.49	844.74
14	Capital Redemption Reserve	1,003.85	1,003.85	1,003.85
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
16	Debt service coverage ratio	NA	NA	NA
17	Interest service coverage ratio	NA	NA	NA

#### The above results were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on January 15, 2025 & January 16, 2025.

The above is an extract of the detailed format of nine monthly financial results filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the nine monthly financial results are available on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and the Company at www.kmil.co.in

For the items referred in the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com Figures for the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to current period/

> For and on behalf of the Board of Directors Kotak Mahindra Investments Limited

**Managing Director and Chief Executive Officer** 

Place: New Delhi Chief Financial Officer Date: 16th January, 2025

financialexp.epapr.in

year presentation.

**Date: January 16, 2025** 

Place: Mumbai



#### एफ्लोट एंटरप्राइजेज लिभिटेड (पूर्व में आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट ३, शॉप ३२५, डीडीए सी.सेंटर, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-१४, रोहिणी, नई दिल्ली-११००८ फोनः +91-9810260127, ईमेलः info@adishaktiloha.com, वेबसाइटः adishaktiloha.com

### ईजीएम की सूचना

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि एफ्लोट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पूर्व में आदिशक्ति लोहा एंड इस्पात लिमिटेड) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक ("बैठक") शनिवार, 08 फरवरी, 2025 को शाम 04:00 बजे पंजीकृत कार्यालय प्लॉट ३, दुकान ३२५, डीडीए सी.सीएनटीआर, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी नई दिल्ली 110085 में आयोजित की जाएगी।

बैठक बुलाने की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजी गई है जिन्होंने डिपॉजिटरी / कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है, और

ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट (adishaktiloha.com) पर उपलब्ध है और बैठक की तिथि तक रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में, व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने ई-वोटिंग स्विधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप मे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित संचार जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड शामिल है, बैठक बुलाने की सूचना की एक प्रति सहित सदस्यों को भेज दी गई है।

ई-वोटिंग के लिए संचार की औपचारिकता कंपनी की वेबसाइट www.adishaktiloha.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 05 फरवरी, 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार 07 फरवरी, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / वोटिंग की सुविधा का लाभ केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि यानी शनिवार, 01 फरवरी, 2025 को सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो। कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी दी गई है, जो कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। **ईमेल पते का पंजीकरणः** जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करें। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') को इसे अपडेट कर दें. जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट देने का अधिकार नहीं होगा

### रिकॉर्ड तिथि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी ने ईजीएम में वोट देने के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने के उद्देश्य से शनिवार, 01 फरवरी, 2025 को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

> एफ्लोट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए हस्ता./-पवन कुमार मित्तल

स्थानः दिल्ली निदेशक तिथिः 15/01/2025 डीआईएनः 00749265

### जगसनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड

CIN: L65929DL1991PLC043182 पंजीकृत कार्यालयः लेवल 3बी, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001. दूरभाषः 011-61289046; ई-मेलः compliance@jagsonpal.co.in;

> वेबसाइटः www.jagsonpal.co.in पोस्टल बैलेट की सुचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, 22 (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो इस समय लागृ हैं), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और यथासंशोधित अन्य लागू परिपत्र, कानून और विनियम और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के साथ-साथ इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 ('एमसीए परिपत्र') और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/ पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के अनुसरण में, जगसनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2025 के नोटिस में उल्लिखित प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल रिमोट वोटिंग ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से पोस्टल बैलट द्वारा पारित

कंपनी ने गुरुवार 16 जनवरी, 2025 को केवल उन सदस्यों को ईमेल द्वारा 16 जनवरी, 2025 की पोस्टल बैलट सुचना भेजने का काम पुरा कर लिया है, जिनके नाम शुक्रवार 10 जनवरी, 2025 (कट ऑफ तिथि) तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सची में दर्ज हैं और जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में, कंपनी ईमेल के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोस्टल बैलट सुचना भेज रही है। तदनुसार, इस पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों को पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ नोटिस की भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jagsonpal.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और धारा 108 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को केवल रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे पोस्टल बैलट फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई–वोटिंग अवधि शुक्रवार 17 जनवरी, 2025 को सुबह 9 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट डालने के इच्छक सदस्यों से अनुरोध है कि वे शनिवार 15 फरवरी, 2025 को शाम 5 बजे (भा.मा.स.) से पहले अपनी सहमति (समर्थन में) या असहमति (विरोध में) दर्ज करें। इसके तुरंत बाद रिमोट ई-वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा और

उक्त तिथि और समय के बाद कोई ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। कंपनी के सदस्यों के लिए

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार 10 जनवरी, 2025 है। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सुचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-48867000 और 022–24997000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, सदस्य info@massenr.com पर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या compliance@jagsonpal.co.in पर कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। मैसर्स पूजा सावरकर एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को पोस्टल बैलट का संचालन करने और एक गुप्त तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रस्तावित प्रस्ताव, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाता है, तो रिमोट ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी शनिवार 15 फरवरी, 2025 को पारित माना जाएगा। पोस्टल बैलट द्वारा आयोजित मतदान के परिणाम और स्क्रृटिनाइजर की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jagsonpal.co.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड को सचित किए जाएंगे और ई-वोटिंग के समापन के 48 घंटे के भीतर

www.bseindia.com पर उपलब्ध होंगे। कंपनी के जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और इसी तरह के पत्राचार जैसे दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर या तो कंपनी की आईडी: compliance@jagsonpal.co.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की ईमेल आईडी: infb@masserv.com या अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को भेजने का अनुरोध किया जाता है।

जगसनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड के लिए कार्तिक श्रीनिवासन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनांकः 16 जनवरी, 2025 डीआईएन: 09805485

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.





बैंक ऑफ बड़ौदा ZOSARB, नई दिल्ली। चौथी मंजिल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, भारत फोन: +91-11-42268509 / 42268003, ई-मेलः armdel@bankofbaroda.co.in

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) & 9(1) देखें] प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) & 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'ज़हाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है और बिना किसी दायित्व रहित" आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्यामत — दाता की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसली हेत नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदारों / गारंटर्स / प्रतिभृत आरितयां / बकाया / आरक्षित मृत्य / ई--मीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि और बोली वृद्धि राशि मीचे वर्णित रूपए होंगी।

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	कुल बकाया	अचल संपत्ति का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	बोली वृद्धि राशि	ई—नीलामी तिथि एवं समय	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक/ भौतिक)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
a	उधारकर्ता / बंधककर्ताः मैसर्स नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लि. रजि. कार्यालय-	रु. 33,74,81,775 (रु. तैतीस करोड़ चौहत्तर लाख इक्यासी हजार सात सी पिचहत्तर	लीज़हॉल्ड खुला प्लॉट नं. बी-8, खसरा नं. 140, क्षेत्रफल 3995 वर्ग मी., पाली-1 पटवार क्षेत्र, पाली-1 तहसील और जिला पाली (राजस्थान) चीहरी: उत्तर में – पाकिंग, दक्षिण में – प्लॉट नं. बी-9, पूरव में – प्लॉट नं. बी-10, पश्चिम- रोड	HAZE-ALAND MIZERA ARRESTAN	₹.16,20,000.00	₹,50,000.00	06-02-2025 अर्पाह 02:00 बजे से अपोड़ 06:00 बजे तक	भौतिक	31.01.2025 को वीपहर 12:00 बजे से अपोह 04:00 हजे तक
2	सी-152 निर्माण विहार दिल्ली - 110092 और: सी/ओ नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क, चक - 1, खसरा	मात्र) दिनाक 11.01.2025 तक तथा दिनांक 12.01.2025 से	लीज़हॉल्ड खुला प्लॉट नं. बी—9, खसरा नं. 140, क्षेत्रफल 3995 वर्ग मी., पाली—1 पटवार क्षेत्र, पाली—1 तहसील और जिला पाली (राजस्थान) चौहदी: उत्तर में — प्लॉट नं. बी—8, दक्षिण में — पार्किंग और गार्छन, पूरव में — प्लॉट नं. बी—11, पश्चिम— रोड	P. 1907	₹.16,20,000.00	₹.50,000.00	06-02-2025 अपीड 02.00 बजे से अपीड 06.00 बजे तक	<b>भौतिक</b>	31.01.2025 को दीपहर 12.00 बजे से अपोह 04.00 बजे तक
3	नंबर – 140, सरदार समंद रोड पाली राजस्थान – 306401 गारंटर: श्री आलोक भटनागर पुत्र श्री बृज	सावदात्मक दर पर ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि	लीजहोंत्रह खुला प्लॉट नं. बी-13, खसरा नं. 140, क्षेत्रफल 3559.08 वर्ग मी., पाली-1 पटवार क्षेत्र, पाली-1 तहसील और जिला पाली (राजस्थान) चौहदी: उत्तर में - प्लॉट नं. बी-14, दक्षिण में - प्लॉट नं. बी-12, पूरब में - रोड़ पश्चिम में - ट्रीटमेंट प्लॉट		₹.14,90,000.00	₹.50,000.00	06-02-2025 अपॉह 02:00 बजे से अपॉह 06:00 बजे तक	भौतिक	31.01.2025 को दोपहर 12.00 बचे से अर्चाह 84.00 बजे तक
4	राज स्वरूप भटनागर और श्री वृज राज स्वरूप भटनागर पुत्र श्री आनंद स्वरूप भटनागर, दोनों निवासी सी-152, निर्माण विहार		लीज़होंल्ड खुला प्लॉट नं. बी-14, खसरा नं. 140, क्षेत्रफल 4210. 78 वर्ग मी., पाली-1 पटवार क्षेत्र, पाली-1 तहसील और जिला पाली (राजस्थान) चौहदीः उत्तर में - पानी की टंकी की भूमि, दक्षिण में - प्लॉट स. बी-13, पूरव में - सड़क, पश्चिम में - ट्रीटमेंट प्लॉट की भूमि	10112500	₹.17,00,000.00	₹.50,000.00	06-02-2025 अर्पांड 02:00 बजे से अपांड 06:00 बजे तक	भौतिक	31.01.2025 को दोपहर 12.00 पत्रों से अपीड़ 04.00 बजे तक
5	नई विल्ली-110092		लीज़हॉल्ड खुला प्लॉट नं. बी—15, खसरा नं. 140, क्षेत्रफल 3855. 51 वर्ग मी., पाली—1 पटवार क्षेत्र, पाली—1 तहसील और जिला पाली (राजस्थान) बॉहडी: उत्तर में — अन्य खसरा, दक्षिण में — प्लॉट नं. वी—16, पूरव में — प्लॉट नं. बी—17, पश्चिम में — रोड़		₹.15,90,000.00	₹.50,000.00	06-02-2025 ਤਾਪੀਂ	भौतिक	31.01.2025 को दोपहर 12.00 बजे से अपीड़ 04.00 बजे सक
6			लीज़होंत्क खुला प्लॉट नं. बी—16, खसरा नं. 140, क्षेत्रफल 3896 वर्ग मी., पाली—1 पटवार क्षेत्र, पाली—1 तहसील और जिला पाली (राजस्थान) चीहदी: उत्तर में — प्लॉट सं. बी—15, दक्षिण में — रोड, पूरब में — प्लॉट सं. बी—17, पश्चिम में — रोड		क.15,10,000.00	₹.50,000.00	06-02-2025 अपिंड 02.00 बजें से अपिंड 06.00 बजें तक	भौतिक	31.01.2025 को दीपहर 12.00 बजे से अपाह 84.00 बजे तक
7			लीज़होंल्ड खुला प्लॉट नं. बी-17 खसरा नं. 140, क्षेत्रफल 5052. 55 वर्ग मी., पाली-1 पटवार क्षेत्र, पाली-1 तहसील और जिला पाली (राजस्थान) चोंहरी: उत्तर में - अन्य खसरा, दक्षिण में - रोड, पूरव में - रोड, पश्चिम में - प्लाट संख्या 15 व 16		₹.20,70,000.00	₹.50,000.00	06-02-2025 अपीड 02:00 बजे से अपीड 06:00 बजे तक	भौतिक	31.01,2025 को दोपहर 12.00 बजे से अपीह 04.00 बजे तक

नीलामी सेवा प्रदाता - https://baanknet.com के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://baanknet.com में दिए गए लिंक को देखें।

इसके अलावा, सभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी शिव राम स्तन ठाकुर, मुख्य प्रबंधक, जेडओएसएआरबी नई दिल्ली मी. 7568716083 से संपर्क कर सकते हैं। इस नीलामी को वापस लेने/रद करने/पुनः वापस करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर सुरक्षित रखा गया है। इसके कारणों की घोषणा या प्रकाशन के बिना। यह माना जाता है कि बोलीदाता को सरफासी अधिनियम / नियम के प्रावधानों की जानकारी है

विनांक : 16-01-2025, स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ोदा ZOSARB, नई दिल्ली चौथी मंजिल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली−110008, भारत फोन: +91-11-42268509 / 42268003, ई-मेलः armdel@bankofbaroda.co.in

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) & 9(1) देखें]

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) & 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल / अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेत ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित का भौतिक **कब्जा**, प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है और बिना किसी दायित्व रहित''** आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / पारंटर्स को प्रत्यामृत – दाला की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतू नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदारों / गारंटर्स / प्रतिभत ऑस्तियां / बकाया / आरक्षित मल्य / ई--नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि और बोली वदि राशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

<b>क.</b> せ.	कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई—नीलामी तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक/ भौतिक)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
	पताः मकान नं. सी—6, साउथ सिटी —।। गुड़गांव — 122018 हरियाणा गारंटरः— 1, श्री राव नरेंद्र सिंह 2. श्रीमती अलका यादव पत्नी श्री राव नरेंद्र सिंह, दोनों निवासी मकान	दिल्ली 110034 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रेखा	(रु. सोलह करोड़ नी लाख अड्डारह हजार तीन सौ साठ मान) दिनांक 11. 01.2025 तक तथा दिनांक 12.01.2025 से अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य व्यय	को अर्पाइ 02:00 बजे से अर्पाह 06:00 बजे तक	क. 87.50 लाख	भौतिक	03-02-2025 अर्पाह 01:00 बजे से अर्पाह 04:00 बजे तक

नीलामी सेवा प्रदाता - https://baanknet.com/ के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शतों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://baanknet.com/में दिए गए लिंक को देखें। इसके अलावा, संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी शिव राम रतन ठाकुर, मुख्य प्रबंधक, जेंडओएसएआरबी नई दिल्ली मो. 7568716083 से संपर्क कर सकते हैं। इस नीलामी को वापस लेने / रद्द करने / पुनः वापस करने का अधिकार

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर सुरक्षित रखा गया है। इसके कारणों की घोषणा या प्रकाशन के बिना। यह माना जाता है कि बोलीदाता को सरफासी अधिनियम / नियम के प्रावधानों की जानकारी है दिनांक : 16-01-2025, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

Criminal Courts, Jalandhai The Court Of Ms. Rasveen kaur JMIC17, NACT/70/2024 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://ecourts.gov.in Exclusive Leasing And Finance Private Limited Vs.

CNR NO: PBJL03-000203-2024 Next Date: 29-01-2025

police station/FIR no. Navi Baradan 138,142 of negotiable instruments act detial of offence-Publication Issued To: Varsha: Bilochapur (110) Tappa Bilochpur

Talwal Haryana whereas complaint/case has been made before me that no has committed ( or is suspected to have committed) the offence ounishable under section 138, 142 of negotiable instruments act and it has been eturned to a warrant of arrest thereupon ssued that the said cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said has absconded it or is concealing himself/herself to avoid the service of the said warrant): proclamation is hereby made that the said is required to appear before this court ( or before me) on 29-1-2025 to answer the said compliant/case JMIC 17 Jalandhar

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आरित रिकवरी शाखा, रिटेल प्रथम वल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-110015,

फोन: 25419177, 25412977 ई-मेल: sbi.05169@sbi.co.in

शुद्धि-पत्र दिनांक 07.01.2025 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सुचना के संदर्भ में आम जनता को सचित किया जाता है कि **कर्जदार** सुश्री सुनीता डागर पत्नी सुचेन्द्र डागर (क्र.सं. 4) और श्री सुभाशीष भट्टाचार्य (क्र.सं. 5) की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 24.01. 2025 को होनी है, के मामले में कब्जे की स्थिति सांकेतिक कब्जे के स्थान पर भौतिक कब्जा पढा जाऐ।शेष पूर्वानुसार रहेंगी।

दिनांकः 16-01-2025 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, स्थान : नई दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक

पुरुप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामल में

एस. के. पॉली फोम्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U51909DL2004PTC124582) जेसका पंजीकृत कार्यालयः बीएफ-16, द्वितीय तल, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता तदहारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपने केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" ख्यानांतरित करने के लिए 25 नवंबर 2024 क आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तं वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पर जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध क कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपति क्षेत्रीर निदेशक को इस स्वना के प्रकाशन की तारीख र चीवह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दसर तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत बाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर्त परभी भेजें।

बीएफ-16, डितीय तल, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

एस. के. पॉली फोम्स प्राइवेट लिमिटेड संतोष अग्रवाल दिनांक: 16.01.2025

डीआईएन:09324871





## प्रथम तल, बोगेनविलिया मार्केट, गामा-।।, ग्रेटर नोएडा, यूपी, फोनः 0120-2326125, 4153028

ई-नीलामी-बिक्री-सूचना चल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

(1) वाहनों के निरीक्षण की तिथि दिनांक 15.02.2024 तक पूर्व नियुक्ति के साथ (2) धरोहर जमा राशि (ईएमडी) और केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 20.02.2025 साथ 2:00 बजे या उससे पूर्व कार जब्दी नोटिस द्वारा कब्जे के तहत चल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / बंधक / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा और रचनात्मक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा, एसएसआई नोएडा शाखा, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 20.02.2025 को बेचा जाएगा।

	कर्जदार का नाम	चल प्रतिभूति आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	वर्तमान बकाया	भौतिक कब्जा	ई—नीलामी की तिथि / समय खाता नं. IFSC कोड	सम्पर्क व्यक्ति
5 1 1 2 2	पताः माया विहार कॉलोनी, नाइस ब्लिक स्कल के पास दादरी जी बी	Seating Capacity: 5 incl. driver	ড. 13,60,000/- ড. 1,36,000/- ড. 20000/-	रु. 13,71,829/- (रु. तेरह लाख इकहत्तर हजार आठ सी उनतीस मात्र) और दिनांक 03. 01,2024 से इसके अतिरिक्त उस पर अप्रयुक्त एवं अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क भी शामिल होंगे।	1425	20.02.2025 आरम समय अर्पा. 02.00 बजे अंतिम समय सायं 6.00 बजे खाता नं. 98250015181869 खाता नाम बैंक ऑफ बड़ौदा SARFAESI AUCTION PROCEEDS COLLECTION A/c IFSC — BARBOGAMNOI Fifth character is 'Zero' in IFSC	गामा ।। ग्रेटर नोएडा शाखा / 9711409247

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://bob.auctiontiger.net/EPROC/prospective पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छक बोलीदाता उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मोबाइल 9711409247 पर प्राध्कृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 16-01-2025, स्थान : नोएडा

प्राधिकत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा

पंजाब नेशनल बेंक

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

जोनल सस्त्र सेंटर दिल्ली, प्रथम तल, 7 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066, ईमेल : zs8343@pnb.co.in

(ग) 23.09.2014

(घ) साँकेतिक अधिग्रहण

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिसका रचनागत / भौतिक / साँकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक / प्रतिभृत ऋणदाता को देय—भृग्तेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिए, यहां इसमें निम्न तालिका में अंटि

कता	नुसार होंगे। प्रतिश	भूत परिसंपत्तियों की अनुसूची					
लॉट	शाखा का नाम	1 6	क) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि	,	ई—नीलामी की	प्रतिभूत	प्राधिकृत
۹.	खाता का नाम	/ स्वामी का नाम (संपत्ति(यों) के		ख) धराज ————	तिथि / समय	ऋणदाताओं	अधिकारी का
	ऋणकर्ता / गारंटरों का नाम एवं पता, खाता	बंधककर्तागण)	ग) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(4) के तहत अधिग्रहण तिथि	ग) बोली वृद्धि राशि	1	को ज्ञात ऋणभारों के	नाम एवं संपर्क
	प्रदेशकरा। १ सारवस क्षेत्र साम दुव बसा, खासा		घ) अधिग्रहण की प्रकृति (साँकेतिक / भौतिक / रचनागत)			विवरण	ਜ.
1.	आंचलिक सस्त्र दिल्ली	वाणिज्यिक संपत्ति यूनिट नंबर बी–5	(क) 01.07.2014	(क) रु. 78.00 लाख	12.02.2025	ज्ञात नहीं	पवन सिंह यादव
		(बेसमेंट) के समस्त वह भाग तथा अंश		(ख) ড. 7.80 লাख	को 11:00 से		मोबाइल नं.:
	मैसर्स अजय गुप्ता श्री नाथ ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, पता : 2502/305, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक— एम, गली नंबर 7 और 8, नाईवाला एस्टेट, बीडनपुरा, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल	संपत्ति सं. 2652—2653 जी स्तुर्ति	अलावा भावी ब्याज और बैंक शुल्क और वसूली के लिए बैंक द्वारा लगाए	(ग) रु. 50,000/-	04:00 बजे		8595816855
	बाग, नई दिल्ली— 110005, श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री दया चंद (निदेशक / गारंटर) का पता : मकान नंबर 2, ऊपरी भू तल, टैगोर पार्क, मॉंडल टाउन, दिल्ली—110009,	बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट, नाईवाला ब्लॉक,	गए अन्य शुल्क				

फीट है, जो श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री

गुप्ता पत्नी श्री दया चंद (गारंटर), पता : मकान नं. २, ऊपरी भू तल, टैगोर पार्क, मॉडल टाउन, दिल्ली— 110009, अन्य पता यह भी : मकान नं. 208, अशोक विहार, फेज— ; दिल्ली— 110052 ई—नीलामी विक्रय के नियम एवं शर्ते : विक्रय, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीर "वहां जो कुछ भी हैं आधार" पर किया जा रहा है। (2) यहां इसमें उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संवर्णित किए गए हैं, तथापि प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में होनेवाली / हुई किसी त्रूटि, त्रूटिपूर्ण–विवरण अथवा चुक हेतू उत्तरदायी नहीं होंगे। (3) प्रतिभृत परिसंपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा। प्रथम बोलीदान, आरक्षित मूल्य से अधिक किसी भी राशि पर आरंभ होना चाहिये। (4) विक्रय, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त विनिर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर वेबसाइट https://Baanknet.com पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा। (5) विक्रय के भावी विवरणों तथा संपूर्ण नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://Baanknet.com तथा www.pnbindia.in का संदर्भ ग्रहण करें।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत साँविधिक विक्रय सूचना

दिनाँक : 16-01-2025, स्थान : नई दिल्ली

अन्य पता यहां भी : मकन नंबर 208, अशोक विहार, फेज-५, दिल्ली-110052., श्रीमती नीरू गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता (निदेशक / गारंटर), पता : मकान नं. 2, ऊपरी भू तल,

टैगोर पार्क, मॉडल टाउन, दिल्ली— 110009, अन्य पता यह भी : मकान नं. 208, अशोक विहार, फेज— ।, दिल्ली— 110052, श्री दया चंद पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ सहाय (गारंटर),

पता : मकान नं. 2, ऊपरी भू तल, टैगोर पार्क, मॉडल टाउन, दिल्ली— 110009, अन्य पता यह भी : मकान नं. 208, अशोक विहार, फेज— ५, दिल्ली— 110052, श्रीमती रमा

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक